

सार समाचार

नेपाल ने लिपुलेख और कालापानी में कराया जनगणना, भारत के साथ बढ़ा तनाव

कालापानी विवाद को लेकर भारत और नेपाल में तनाव अभी तक थमा नहीं है। मौजिंग रिपोर्ट्स के मुताबिक, नेपाल ने उत्तराखण्ड के पिंडीरागढ़ जिले के लिपुलेख, कालापानी और लिपुलेख क्षेत्रों में अनौपचारिक जनगणना कराई है। बता दें कि नेपाल इस क्षेत्र में 700 लोगों की आवादी है। बता दें कि, जनगणना कार्यकारी शारीरिक रूप से इन क्षेत्रों में नहीं पहुंचते हैं। इसकी जानकारी बोल के अधिकारियों ने दी है। नेपाल ने यह जनगणना गर्न-परापरिक तरीकों से किया है। बता दें कि, अधिकारी बार नेपाल ने इस क्षेत्र में साल 1961 में जनगणना की थी। संदर्भ ब्यूरो ऑफ स्टॉटिस्टिक्स नेपाल के उप नियंत्रक हमाराज रेमी ने बताया है कि हमने भारत जाने पर ग्रासी मजदूरी, बैंडर पत तोता रुक्त कर्मी और बैंडर पार नपाली नामकों के रिश्तेदारों के लिए यह डेटा जमा किया है। बता दें कि नेपाल इस क्षेत्र में वार्तापक सख्त का पता लाने के लिए सेटेलाइट का इस्तेमाल कर रहा।

व्या का कालापानी विवाद नेपाल ने छहली बार कालापानी क्षेत्र को भारतीय शासन के अधीन होने पर एक अपील जारी की। कालापानी उत्तराखण्ड के पिंडीरागढ़ जिले में भारत, चीन और नेपाल के बीच राजनीतिक रूप से मध्यपूर्ण नि-जनशन है 1997 में, भारत और चीन द्वारा मानसन्देश के लिए सहमति जानी गई थी। नेपाल का कहना है कि कालापानी सुदूर पश्चिम प्रदेश में उसके दारबुला जिले का हिस्सा है। कालापानी मटे तूर पर हमारी नदियों की गढ़वाली से बनी एक घाटी है, जो नेपाल और भारत के लिए बिंदुओं पर काली, महाकाली या नदी के में जानी जाती है। लिपुलेख कालापानी घाटी के ऊपर है और भारत, नेपाल और चीन के बीच एक त्रिजनशन बनाता है। यह एक प्राचीन व्यापार और तीर्थ मार्ग है जो सदियों से दूरी में रहने वाले भूतिया लगा द्वारा स्थानीय लोग से प्राप्त है। 1962 में चीनी अक्षयांग के बाद भारत ने इस मार्ग को बंद कर दिया। लेकिन इस महीने की शुरुआती में, भारत ने 22 किलोमीटर की नई सड़क के निर्माण के बाद कैलाश मानसन्देश के लिए लिपुलेख दर्द को फिर से खोल दिया। यह गुंगी नामक गाव से खुलता है। नेपाल गाव और सड़क को आगाम इलाका होने का दावा करता है। राजमीटी राजनाला चिंगे 8 मई 2020 को 74 किलोमीटर पर्यावागर-लिपुलेख कालापानी घाटी का उद्घाटन किया था जिसके बाद नेपाल ने बाहर सड़क बनाने के एकत्रफा फैसले को 2014 के समझौते का उल्लंघन बताया था।

श्रीलंका में स्वास्थ्य अधिकारियों ने कोविड-19 के मामले बढ़ने पर चेतावनी दी

कोतवाली। श्रीलंका में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने पर राज्यव्यवस्था ने चेतावनी जारी की है। देश में शिवायर को टीकाकरण अभियान का एक साल पूरा हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि सामने आ रहे 95 फ़ोर्सदी नए मामलों में अमोइनान रखरूप सामने आया है। भारत से कोरोना-रोगी टीका कोविड-19 की पापराज व्यापकी के प्रभाव और गोलाकारी के प्रभाव तथा गोलाकारी नदी के बाद पर रह कर दिया। लेकिन इस महीने की शुरुआती में, भारत ने 22 किलोमीटर की नई सड़क के निर्माण के बाद कैलाश मानसन्देश के लिए लिपुलेख दर्द को फिर से खोल दिया। यह गुंगी नामक गाव से खुलता है। नेपाल गाव और सड़क को आगाम इलाका होने का दावा करता है। राजमीटी राजनाला चिंगे 8 मई 2020 को 74 किलोमीटर पर्यावागर-लिपुलेख कालापानी घाटी का उद्घाटन किया था जिसके बाद नेपाल ने बाहर सड़क बनाने के एकत्रफा फैसले को 2014 के समझौते का उल्लंघन बताया था।

हर लड़की और महिला को बुनियादी मानवाधिकार मुहूर्या कराए तालिबान: गुरुरेस

न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र महासंघिक एटोनियो गुरुरेस ने तालिबान से हर लड़की और महिला को बुनियादी मानवाधिकार मुहूर्या करने की अपील की है। गुरुरेस ने कहा कि अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों को एक बार फिर शिक्षा, रोजगार और समाज व्यय के उपरे अधिकारों से विहृत किया जा सकता है। विशेष समुदाय का प्रतिवाद द्वारा बायरस के अंग नामानिस्तान के लिए तालिबान को प्रतिवाद दिखाया गया है। श्रीलंका में शुरुकावर तक कोरोना वायरस से संबंधित लोगों की कुल संख्या 608,065 पर रह कर दिया गया है। श्रीलंका में शुरुकावर तक कोरोना वायरस से कुल 15,366 लोगों की मौत हुई है। जीवक 1.65 करोड़ लोगों को कोविड टीके की फैली खुलक और 1.38 करोड़ लोगों को दूसरी खुलक लगा रहा है।

कांगो की सैन्य कोर्ट ने यूएन विशेषज्ञों की हत्या के जुर्म में 50 से अधिक लोगों को सुनाई मौत की सजा

किंग्सास। कांगो की एक सैन्य अदालत ने संयुक्त राष्ट्र के जावकातां माइकल शर्प और जैद फैलान की किसाई प्रांत में हायंग के करीब पांच साल तक परीक्षण 50 लोगों को मौत की शिकायत की जानी गई। एक अंगीकारी द्वारा दिये गये नियंत्रित राष्ट्रीय अधिकारियों को एक बार फिर शिक्षा, रोजगार और समाज व्यय के उपरे अधिकारों से विहृत किया जा सकता है। विशेष समुदाय का प्रतिवाद द्वारा बायरस के अंग नामानिस्तान के लिए तालिबान को प्रतिवाद दिखाया गया है। तालिबान को उन बुनियादी मानवाधिकारों को प्रतिवाद द्वारा होगा, जो नामानिस्तान के लिए तालिबान के शासन के छह महीने से अधिक हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए ग्रामीण रेगिस्ट्रेशन के बारे में बार-बार दिया जाता है। अफगानिस्तान से अपीली दिया जाता है। अंगीकारी द्वारा बायरस के अंग नामानिस्तान में सभी अंतकारी समझौतों के बालाकोर वायरस के लिए तालिबान के वितार को रोका जाना चाहिए। उन्होंने आगामी किया कि अफगानिस्तान बहुत लंबे समय से अंतकारी समझौतों के बालाकोर वायरस के लिए एक अनुकूल स्थान रहा है। अग्र अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अफगान लोगों की मदद नहीं करता है तो क्षेत्र व दुनिया को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

कांगो की सैन्य कोर्ट ने यूएन विशेषज्ञों की हत्या के जुर्म में 50 से अधिक लोगों को सुनाई मौत की सजा

अपेक्षित राष्ट्रीय अधिकारियों की जावकातां माइकल शर्प और जैद फैलान की किसाई प्रांत में हायंग के करीब पांच साल तक परीक्षण 50 लोगों को मौत की शिकायत की जानी गई। एक अंगीकारी द्वारा दिये गये नियंत्रित राष्ट्रीय अधिकारियों को एक बार फिर शिक्षा, रोजगार और समाज व्यय के उपरे अधिकारों से विहृत किया जा सकता है। विशेष समुदाय का प्रतिवाद द्वारा बायरस के अंग नामानिस्तान के लिए तालिबान को प्रतिवाद दिखाया गया है। तालिबान को उन बुनियादी मानवाधिकारों को प्रतिवाद द्वारा होगा, जो नामानिस्तान के लिए तालिबान के शासन के छह महीने से अधिक हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए ग्रामीण रेगिस्ट्रेशन के बारे में बार-बार दिया जाता है। अफगानिस्तान से अपीली दिया जाता है। अंगीकारी द्वारा बायरस के अंग नामानिस्तान में सभी अंतकारी समझौतों के बालाकोर वायरस के लिए तालिबान के वितार को रोका जाना चाहिए। उन्होंने आगामी किया कि अफगानिस्तान बहुत लंबे समय से अंतकारी समझौतों के बालाकोर वायरस के लिए एक अनुकूल स्थान रहा है। अग्र अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अफगान लोगों की मदद नहीं करता है तो क्षेत्र व दुनिया को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

कांगो की सैन्य कोर्ट ने यूएन विशेषज्ञों की हत्या के जुर्म में 50 से अधिक लोगों को सुनाई मौत की सजा

किंग्सास। कांगो की एक सैन्य अदालत ने संयुक्त राष्ट्र के जावकातां माइकल शर्प और जैद फैलान की किसाई प्रांत में हायंग के करीब पांच साल तक परीक्षण 50 लोगों को मौत की शिकायत की जानी गई। एक अंगीकारी द्वारा दिये गये नियंत्रित राष्ट्रीय अधिकारियों को एक बार फिर शिक्षा, रोजगार और समाज व्यय के उपरे अधिकारों से विहृत किया जा सकता है। विशेष समुदाय का प्रतिवाद द्वारा बायरस के अंग नामानिस्तान के लिए तालिबान को प्रतिवाद दिखाया गया है। तालिबान को उन बुनियादी मानवाधिकारों को प्रतिवाद द्वारा होगा, जो नामानिस्तान के लिए तालिबान के शासन के छह महीने से अधिक हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए ग्रामीण रेगिस्ट्रेशन के बारे में बार-बार दिया जाता है। अफगानिस्तान से अपीली दिया जाता है। अंगीकारी द्वारा बायरस के अंग नामानिस्तान में सभी अंतकारी समझौतों के बालाकोर वायरस के लिए तालिबान के वितार को रोका जाना चाहिए। उन्होंने आगामी किया कि अफगानिस्तान बहुत लंबे समय से अंतकारी समझौतों के बालाकोर वायरस के लिए एक अनुकूल स्थान रहा है। अग्र अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अफगान लोगों की मदद नहीं करता है तो क्षेत्र व दुनिया को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

कांगो की सैन्य कोर्ट ने यूएन विशेषज्ञों की हत्या के जुर्म में 50 से अधिक लोगों को सुनाई मौत की सजा

किंग्सास। कांगो की एक सैन्य अदालत ने संयुक्त राष्ट्र के जावकातां माइकल शर्प और जैद फैलान की किसाई प्रांत में हायंग के करीब पांच साल तक परीक्षण 50 लोगों को मौत की शिकायत की जानी गई। एक अंगीकारी द्वारा दिये गये नियंत्रित राष्ट्रीय अधिकारियों को एक बार फिर शिक्षा, रोजगार और समाज व्यय के उपरे अधिकारों से विहृत किया जा सकता है। विशेष समुदाय का प्रतिवाद द्वारा बायरस के अंग नामानिस्तान के लिए तालिबान को प्रतिवाद दिखाया गया है। तालिबान को उन बुनियादी मानवाधिकारों को प्रतिवाद द्वारा होगा, जो नामानिस्तान के लिए तालिबान के शासन के छह महीने से अधिक हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए ग्रामीण रेगिस

भारत के पुनर्निर्माण के लिए सादगी, स्वदेशी, स्वभाषा, सत्याग्रह एवं साधन शुद्धि के 'गांधी विचार' महत्वपूर्ण: केन्द्रीय गृह मंत्री

अहमदाबाद।

साम्राज्य की दासता से देश को मुक्त प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी ने पूज्य केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री करने का 'गांधी संकल्प बल' हाम बापू के खादी, स्वदेशी, स्वभाषा अमित शाह ने शहोद स्वृति तथा सबके लिए प्रेरणाशील बना हुआ तथा हस्तशिल्प जैसे विचारों को गांधी निर्वाचन दिवस के उपलक्ष्य में है। इस अवसर पर केन्द्रीय गृह मंत्री पुनर्जीवित करने का प्रशंसनीय अहमदाबाद में सावरमती रिवरफ़रंट ने भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष कार्य भी किया है। शाह ने कहा हाउस में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री कि नरेंद्रभाई ने गुजरात में अपने के दीवार चित्र (वाल घेंट) का नरेंद्रभाई मोदी द्वारा प्रांभ किए मुख्यमंत्रित्व काल में स्वयं खादी की अनावरण करते हुए कहा कि गए 'आजादी का अमृत महोस्तव' खरीदारी कर गांधीजी के विचारों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सादगी, समरोह का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए को बल प्रदान करने की शुरुआत स्वदेशी, स्वभाषा, सत्याग्रह तथा कहा कि इस महोस्तव के चलते 18 की थी। प्रधानमंत्री ने खादी उद्योग साधन शुद्धि जैसे विचार भारत के 57 से 1947 तक भारत की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए 'खादी फॉर्म' मंत्री ने नारायणकों से स्वभाषा से नाता भी अपील की। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि लिए अपना सर्वस्व न्योडावर नेशन' के साथ 'खादी फॉर्मेशन' बनाए रखने का अनुरोध करते हुए वर्तमान समय में भी खादी उतनी ही महत्वपूर्ण व प्रासंगिक है। वह करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के का नारा भी जोड़ा। अमित शाह ने कहा कि यदि हम अपनी स्वभाषा ही प्रासंगिक है। केन्द्रीय गृह एवं दीवार चित्र भारत के अवसर पर जनसमूह योगदान के विचार में भरत की इस अवसर पर ने मिट्टी के 2075 कूलहों से तैयार कहा कि यह अमृत महोस्तव हमें अनुरोध करते हुए कहा कि पूर्ण अमित शाह ने इस अवसर पर उपर्युक्त करते हुए कहा कि लक्ष्य निर्धारित करने का अवसर भी का जीवन जिए और उनका जीवन कर देश के गैरीबों को गौरवपूर्ण उद्यमियों को मधुमधुयी पालन के दुनिया के सबसे बड़े ब्रिटिश प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि ही उनका संदेश बना। केन्द्रीय गृह जीवन जीने का अवसर देने की लिए पेटियों का विवरण किया।



सूरत में रूम पार्टनर की हत्या करके फरार हुए आरोपी को पुलिस ने आगरा से पकड़ा

सूरत। सूरत के पांडेसरा में 50 दिन का प्रयास किया गया।

पहले हुए एक युवक की हत्या के मामले पांडेसरा पुलिस ने में पुलिस ने आगरा से एक युवक को पूरे मामले में हत्या का गिरफ्तार किया। इतना ही नहीं पुलिस मामला दर्ज कर लिया जांच में सामने आया है कि युवक की है और कुछ ही दिनों में हत्या रूममेट नहीं की है और चोरी के हत्यारे का पता लगाने में आरोप में की थी। गला काट कर लाश कामयाबी हासिल कर ली को आग लगाकर हत्यारा रूम पार्टनर है। एक ही रूम में रह रहे फरार हो गया था पुलिस ने मोबाइल धर्मेंद्र नाम के युवक के लोकेशन ट्रैकर के गिरफ्तार किया।

पांडेसरा के बीआईपी बौधारी ने कहा कि शक के दायरे में होने के



का भी पुलिस जांच में पता चला।



मौन रखा गया। सूरज शहर के बनाए रखने में सरकार विफल पार्टी के प्रवेश प्रमुख गोपाल

मेयर तथा अन्य पदाधिकारियों रही है।

इटालिया में कहा कि गांधीजी के उपलक्ष्य में राजनीतिक पार्टी द्वारा कार्यक्रम खत्म होने के आम आदमी पार्टी द्वारा भले ही हमारे साथ नहीं है बाद आम आदमी पार्टी के तमाम वार्ड में जहां भी गांधी लेकिन उनके सत्य के विचार आयोजन किया गया। जिसमें प्रदेश प्रमुख सहित कॉरपोरेट प्रतिमा है वहां जाने का निर्णय आज भी हमारे साथ है। भरतीय जनता पार्टी और वहां पहुंचे और उन्होंने भी किया गया। कॉर्पोरेशन के गांधीजी ने सत्य का अहिंसा भारी चौक पर स्थित गांधी प्रतिमा के पास मौन रखा विरोध पक्ष के नेता और का मार्ग दिखाया था जिसे चौक पर कर्तव्य का शर्तुत गांधी प्रतिमा को राज्य में उतार कर हमने किया।

को राज्य में कानून व्यवस्था श्रद्धांजलि दी। आम आदमी सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं।

गांधीजी का 'खेती-खादी से स्वराज' का सपना आज पीएम मोदी कर रहे हैं साकार : मुख्यमंत्री

अहमदाबाद। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि अहमदाबाद के श्रीराम नगर तलाशी शुरू की।

सामर्थी की गांधी तथा सुदूरता में बृद्धि करने वाला नया नज़राना अहमदाबाद को दें के लिए अमित शाह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत सकार के खादी एण्ड विलेज इण्डस्ट्री कर्मियां द्वारा तैयार किया गया वापू का यह दीवार चित्र गांधी निवान दिवस पर फूर्य वापू को भावपूर्ण रुद्रांगलि है। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद के खादी एण्ड विलेज इण्डस्ट्री कर्मियां द्वारा तैयार किया गया वापू को भावपूर्ण रुद्रांगलि है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई के दीवार चित्र के लिए लाश कामयाबी हासिल कर ली गयी है। एक ही रूम में रह रहे फरार हो गया था पुलिस ने मोबाइल धर्मेंद्र नाम के युवक के लोकेशन ट्रैकर के गिरफ्तार किया।

प्रधानमंत्री की गांधी तथा सुदूरता में बृद्धि करने वाला नया नज़राना अहमदाबाद को दें के लिए अमित शाह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत सकार के खादी एण्ड विलेज इण्डस्ट्री कर्मियां द्वारा तैयार किया गया वापू का यह दीवार चित्र गांधी निवान दिवस पर फूर्य वापू को भावपूर्ण रुद्रांगलि है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई के दीवार चित्र के लिए लाश कामयाबी हासिल कर ली गयी है। एक ही रूम में रह रहे फरार हो गया था पुलिस ने मोबाइल धर्मेंद्र नाम के युवक के लोकेशन ट्रैकर के गिरफ्तार किया।

प्रधानमंत्री की गांधी तथा सुदूरता में बृद्धि करने वाला नया नज़राना अहमदाबाद को दें के लिए अमित शाह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत सकार के खादी एण्ड विलेज इण्डस्ट्री कर्मियां द्वारा तैयार किया गया वापू का यह दीवार चित्र गांधी निवान दिवस पर फूर्य वापू को भावपूर्ण रुद्रांगलि है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई के दीवार चित्र के लिए लाश कामयाबी हासिल कर ली गयी है। एक ही रूम में रह रहे फरार हो गया था पुलिस ने मोबाइल धर्मेंद्र नाम के युवक के लोकेशन ट्रैकर के गिरफ्तार किया।

प्रधानमंत्री की गांधी तथा सुदूरता में बृद्धि करने वाला नया नज़राना अहमदाबाद को दें के लिए अमित शाह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत सकार के खादी एण्ड विलेज इण्डस्ट्री कर्मियां द्वारा तैयार किया गया वापू का यह दीवार चित्र गांधी निवान दिवस पर फूर्य वापू को भावपूर्ण रुद्रांगलि है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई के दीवार चित्र के लिए लाश कामयाबी हासिल कर ली गयी है। एक ही रूम में रह रहे फरार हो गया था पुलिस ने मोबाइल धर्मेंद्र नाम के युवक के लोकेशन ट्रैकर के गिरफ्तार किया।

प्रधानमंत्री की गांधी तथा सुदूरता में बृद्धि करने वाला नया नज़राना अहमदाबाद को दें के लिए अमित शाह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत सकार के खादी एण्ड विलेज इण्डस्ट्री कर्मियां द्वारा तैयार किया गया वापू का यह दीवार चित्र गांधी निवान दिवस पर फूर्य वापू को भावपूर्ण रुद्रांगलि है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई के दीवार चित्र के लिए लाश कामयाबी हासिल कर ली गयी है। एक ही रूम में रह रहे फरार हो गया था पुलिस ने मोबाइल धर्मेंद्र नाम के युवक के लोकेशन ट्रैकर के गिरफ्तार किया।

प्रधानमंत्री की गांधी तथा सुदूरता में बृद्धि करने वाला नया नज़राना अहमदाबाद को दें के लिए अमित शाह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत सकार के खादी एण्ड विलेज इण्डस्ट्री कर्मियां द्वारा तैयार किया गया वापू का यह दीवार चित्र गांधी निवान दिवस पर फूर्य वापू को भावपूर्ण रुद्रांगलि है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई के दीवार चित्र के लिए लाश कामयाबी हासिल कर ली गयी है। एक ही रूम में रह रहे फरार हो गया था पुलिस ने मोबाइल धर्मेंद्र नाम के युवक के लोकेशन ट्रैकर के गिरफ्तार किया।

प्रधानमंत्री की गांधी तथा सुदूरता में बृद्धि करने वाला नया नज़राना अहमदाबाद को दें के लिए अमित शाह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत सकार के खादी एण्ड विलेज इण्डस्ट्री कर्मियां द्वारा तैयार किया गया वापू का यह दीवार चित्र गांधी निवान दिवस पर फूर्य वापू को भावपूर्ण रुद्रांगलि है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई के दीवार चित्र के लिए लाश कामयाबी हासिल कर ली गयी है। एक ही रूम में रह रहे फरार हो गया था पुलिस ने मोबाइल धर्मेंद्र नाम के युवक के लोकेशन ट्रैकर के गिरफ्तार किया।

प्रधानमंत्री की गांधी तथा सुदूरता में बृद्धि करने वाला नया नज़राना अहमदाबाद को दें के लिए अमित शाह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत सकार के खादी एण्ड विलेज इण्डस्ट्री कर्मिय